



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3 - Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 1978/पौष 20, 1899

No 22] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 1978/PAUSA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्थान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 जनवरी 1978

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा का. नि. 27(अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम,  
1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय  
उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती  
है, अर्थात् :-

1 (1) इन नियमों का नाम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क में, उप-नियम (3) में, खण्ड (6क) में, उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नीलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1978 के आरम्भ से तुरन्त पूर्व विस्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 (1977 का 29) के अधीन उत्पाद-शुल्क बंद कर दिए जाने के परिणामस्वरूप विनिर्माता द्वारा उपयोग में न लाई गई किसी सामग्री या संघटक पुर्जों की बाबत उक्त अनुज्ञात सहायक उत्पाद-शुल्क की जमा खाते रकम का उपयोग, ऐसे आरम्भ के पश्चात् किसी ऐसे तैयार उत्पाद-शुल्क्य माल पर शुल्क के संदाय के लिए किया जा सकता है, जिसके विनिर्माण के लिए ऐसी सामग्री या संघटक पुर्जों के उपनियम (2) के अधीन कारखाने के परिसर में लाने के लिए अनुज्ञात किया गया था।”

[अधिसूचना नं. 4/78-सी. ई. फा. नं. 211/4(एम)/76-सी. एक्स. 6]  
कै. डी. तायल, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 1978

### CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 27(E).**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excises Rules, 1944, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 1978.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, in sub-rule (3), in clause (via), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely :—  
“(c) The credit of auxiliary duties of excise allowed in respect of any material or component parts and lying unutilised immediately before the commencement of the Central Excise (Amendment) Rules, 1978 in the account of the manufacturer as a result of discontinuance of the said duties of excise under the Finance (No. 2) Act, 1977 (29 of 1977), may be utilised after such commencement towards payment of duty on any finished excisable goods for the manufacture of which such material or component parts were permitted to be brought into the factory under sub-rule (2).”

[No. 4/78-C.E. F. No. 211/4(M)/76-CX 6]

K. D. TAYAL, Under Secy.